



महात्मा गाँधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय

Mahatma Gandhi Central University

(A Central University established by an Act of Parliament)

Dr. Ambedkar Administrative Building, Raghunathpur, Motihari-845401, Dist. East Champaran, Bihar

Email: anandprakash@mgcub.ac.in

F. No:1-2021/DSW/10

Date: 10.04.2021

परिपत्र

हम सभी जानते हैं हमारे देश को बढ़ते हुए कोरोना वायरस के मामलों में कितनी मुश्किलों से गुजरना पड़ रहा है और यह कोविड-19 से किस तरह से जूझ रहा है। देश व्यापी स्तर पर और बिहार में भी कोविड मामलों में अभूतपूर्व वृद्धि के कारण विश्वविद्यालय को एक बार फिर से बंद करना पड़ा है। विश्वविद्यालय का इस प्रकार से अप्रत्याशित रूप से बंद होना स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और शिक्षा से जुड़ी विविध चुनौतियां प्रस्तुत कर रहा है। इस कठिन दौर के समय हितधारकों के बीच चिंता एवं भ्रम का होना स्वाभाविक है। महात्मा गाँधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय नियमित बातचीत और परामर्श के माध्यम से छात्रों में किसी भी प्रकार की चिंताओं और भ्रम को दूर करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रहा है तथा हितधारकों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए सभी संभावित माध्यमों से नियमित रूप से उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा को सुनिश्चित कर रहा है। हितधारकों के शिक्षण, अधिगम तथा उनके कल्याण और कोविड-19 से पड़ने वाले असर को न्यूनतम करने हेतु माननीय कुलपति के अनवरत निर्देशन में विश्वविद्यालय प्रशासन ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं।

- (1) पाठ्यक्रम को पूरा करने हेतु नियमित ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है।
- (2) मानवीय स्वास्थ्य पर स्क्रीन के लगातार प्रयोग से होने वाले दुष्प्रभाव को कम से कम करने के लिए कक्षाओं की अवधि और समय का विशेष ध्यान रखा गया है।
- (3) आंतरिक मूल्यांकन को निर्धारित अवधि के अंदर ही पूरा कर लिया गया है।
- (4) परीक्षा की समयावधि तथा तौर-तरीकों के सभी विकल्पों पर चर्चाएं जारी हैं तथा इसका अंतिम निर्णय छात्रों की सुरक्षा, हितों तथा भविष्य को देखकर ही लिया जाएगा।
- (5) संकायाध्यक्षों एवं विभागाध्यक्षों को विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों के शेष कोर्सवर्क पाठ्यक्रम को ऑनलाइन मोड से पूरा करने के लिए निर्देशित किया गया है।
- (6) विश्वविद्यालय के बंद रहने के दौरान एम.फिल/पी.एचडी शोधार्थियों के छात्रवृत्ति को प्रदान करने की सारी प्रक्रियाओं का संचालन किया जा रहा है।
- (7) छात्रों की आवश्यकतानुसार मनोवैज्ञानिक सहायता/ परामर्श की सुविधा उपलब्ध है।



महात्मा गाँधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय

Mahatma Gandhi Central University

(A Central University established by an Act of Parliament)

Dr. Ambedkar Administrative Building, Raghunathpur, Motihari-845401, Dist. East Champaran, Bihar

Email: anandprakash@mgcub.ac.in

(8) सभी हितधारकों से प्राप्त होने वाले सकारात्मक सुझावों का स्वागत है।

यह शिक्षा के लिए एक कठिन समय है और हमें याद है कि हमने आपदा के पहले चरण में किस प्रकार से एक दूसरे का साथ निभाया था। मुझे इस बात का दृढ़ विश्वास है कि हमारे निरंतर प्रयास, धैर्य तथा समय रहते लिए गए निर्णयों से कोविड-19 की महामारी के बढ़ते हुए प्रकोप को हम एक अवसर के रूप में परिणत करेंगे।

इस आशा के साथ कि आप सभी कोविड-19 को फैलने से रोकने तथा एमएचए द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए अपने स्वास्थ्य की देखभाल कर रहे हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से हमारे सभी विद्यार्थियों/शोधार्थियों से इस कठिन दौर में, अपने संयम तथा धीरज को बना कर, महामारी के कारण किसी भी अनसुलझे विषय पर हमारे साथ अपनी निरंतरता को बनाए रखने की अपील करता हूँ। विद्यार्थियों के हित तथा विश्वविद्यालय के विकास से जुड़े सभी विषयों को प्राथमिकता के साथ संबोधित किया जाएगा इसी विश्वास के साथ मैं आप सभी के कुशल-मंगल की कामना करता हूँ।

प्रो. आनन्द प्रकाश

(छात्र अधिष्ठाता कल्याण)